

पूर्वोत्तर भारत के पर्व त्यौहार



पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख पर्व

लोटार

- निष्क्रिय क्षेत्र में रहने वाले बोद्ध लोटार पर्व को नववर्ष के शुभारंभ के रूप में मनाते हैं।
- यह 'लोटार पर्व' लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में उमंग के साथ मनाया जाता है।

हार्णियन गाहात्स्य

- हार्णियन महोत्सव का आयोजन नगालैंड के स्थापना दिवस, 1 दिसंबर को किया जाता है।
- पूर्व समाह तक नगालैंड की जनजातियों संस्कृति की रासारंग प्रस्तुतियों पेश की जाती हैं।
- इस लोटार स्थानीय लोकगृह, संगीत, वास्तुशिल्प आदि के रूपार्थ कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

लोटांग/लोटांग

- यह पर्व सिक्किम में निवास करने वाली भूटिया और लेढ़ा जनजातियों द्वारा दिसंबर मास में 'सिक्किमी नववर्ष' के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- इसे 'नामसून' भी कहा जाता है।
- यह पर्व अच्छी कृषि उपज के लिये प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिये भी मनाया जाता है।

साना दावा

- भावान बुद्ध की जयंती को सिक्किम में 'साना दावा' नाम से मनाया जाता है।
- यह पर्व महात्मा बुद्ध की जयंती के साथ-साथ उनके निर्वाण (ज्ञान प्राप्ति) और महापरिनिवारण के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है।

विद्व

- असम का सर्वांगीक लोकप्रिय त्योहार विद्व, साल में तीन बार मनाया जाता है-
 - ✓ बोहाग या रोगाली विद्व - बैशाख - मध्य अप्रैल में
 - ✓ कांगोली विद्व या काटी विद्व - कार्तिक - मध्य अक्टूबर में
 - ✓ माघ विद्व या भोगाली विद्व - माघ - मध्य जनवरी में
- विद्व उत्तरव, असम के कृषक समुदाय व मीसम में होने वाले परिवर्तनों से निर्धारित फसल चक्र से गहारा से जुड़ा हुआ है।
- कृषि और मीसम में होने वाले परिवर्तनों से जुड़ा होने के कारण यह पर्व असम में रहने वाले सभी धर्मों और विश्वासों को मानने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है।

अंगुलामी गोला

- 'गुवाहाटी' (असम) के कामाख्या मंदिर के पास मानसून के मीसम में यह पर्व मनाया जाता है।
- इस लोटार यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु विवाह और संतान की कामना से आते हैं। इसे 'पर्व का महाकुंभ' भी कहा जाता है।

राठीं पुरा

- यह हर साल जुलाई-अगस्त में रिपुर में आयोजित की जाती है।
- यह त्रिपुरा के आदिवासियों द्वारा की जाने वाली चोरह देवताओं की समाप्तिक पूजा है।
- इस समय समस्त त्रिपुरा के आदिवासी लोग अपने कुल देवता की पूजा करने और तुमारी संस्कृति को संजोए रखने के लिये हजारों की संख्या में एकावित होते हैं।

साजोंगु वेदांगाड़ा

- 'साजोंगु चेंडगाओदा' मणिपुर की 'मेहिंती' जनजाति द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है,
- यह एक सो इमों का पर्व भी कहते हैं।
- इस समय लोग 'दक्कमडा', 'दक्कमी' जापक सुंदर रंग-विद्यों परिधान पहनते हैं और इमों की ताल के साथ कुल करते हुए स्थानीय गांत गाते हैं।

कांग चिंदा

- 'कांग चिंदा' मणिपुर के मेहिंती द्विदुओं द्वारा जुलाई में आयोजित की जाने वाली 'रथयात्रा' है।
- यह रथयात्रा मुग्गी में होने वाली रथयात्रा के समान है।
- इस लोटार स्थानीय 'संकरंति' करते हैं। भगवान जगन्नाथ को जिस बाहन से ले जाया जाता है, उसे कांग कहते हैं।

सोङ्गल्ली पर्दा

- नगालैंड की 'आगामी' जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सोङ्गल्ली पर्व युद्ध में जाने से पूर्व शुद्धीकरण के विधि-विधानों से जुड़ा है। इसे 'फौसान्दी' भी कहा जाता है।
- इस पर्व के दौरान युद्ध गाव के पानी के घोत के पास विधि-विधान से मान करते हैं और अपने अस्थ-सासों को भी विवर करते हैं।
- स्थियों को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती है।

लुई-नागार्द-नी

- 'लुई-नागार्द-नी' मणिपुर में निवास करने वाली नगा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित त्योहार है।
- बंसत के आमत के साथ इस समय नगा कृषक खेतों में जाए और बीज बोते हैं।

- इस पर्व के समय नगा संस्कृति का जीवंत दरशन लोकगीतों, नृत्यों, वेश-भूषा और खान-पान आदि में किये जा सकता है।

द्री

- 'द्री' अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में रहने वाली 'अपाजानों' जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला त्योहार है जुड़ा हुआ त्योहार है।

- 'द्री' का शाविक अर्थ है 'अनाज की कमी के समय उसकी खेती या उत्पाद मायगा।'

- इस त्योहार में महिलाएं वाड़न बनाती हैं तथा पुरुष इसका पान करते हैं।

वापचार कूट

- चपचार कूट मिजोरम में फरवरी-मार्च में मनाया जाने वाला कूट से संबंधित पर्व है।
- इस समय तक इम कृषि के लिये खेत साफ कर लिये गए होते हैं, बीजों की बुआई शुरू करने से पहले, खाली समय में वह त्योहार उत्तम के साथ मनाया जाता है।
- इस लोटार के लिये जाने वाले प्रमुख नव्य हैं - 'चेराव', 'खुल्लम' व 'सरलमकड़ी'।
- चपचार कूट, मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़े तीन प्रमुख त्योहारों में से एक है, अन्य हैं - 'मिम कूट' और 'पादल कूट'।

पर्मु

- यह फूलों का त्योहार है। इसे ओडिशा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के संदर्भ लोग मनाते हैं।